

# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड लखनऊ-226001

फ़ोन : 0522-2238846, 2236600, फ़ैक्स : 0522- 2237800



दिनांक : 16/05/2020

अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबंधक / प्रधानाचार्य  
समस्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र,  
उत्तर प्रदेश

विषय – समस्त जी०एन०एम० / ए०एन० एम० की वार्षिक परीक्षा अगस्त- सितम्बर- २०२० के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आपको अवगत कराना है, कि जी०एन० एम०/ए०एन०एम० प्रशिक्षण की परीक्षाये, अगस्त-सितम्बर - २०२० में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में बैठने वाले अर्हर छात्र/ छात्राओं की सूची संलग्न प्रोफार्मा में आमंत्रित की जाती है। आपके प्रशिक्षण केंद्र से आमंत्रित द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र / छात्राओं की सूची में इनरोलमेंट नंबर, पूर्व में आवंटित अनुक्रमांक, छात्र / छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना आवश्यक है। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अलग से सूची बनाकर परीक्षा शुल्क जमा करें।

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अह अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क एवं अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क इस कार्यालय में निम्नानुसार लॉक डाउन खुलने के पश्चात् दस दिन के अंदर डी० डी० (डिमांड -ड्राफ्ट) के साथ उपलब्ध कराएँ।

नर्सिंग (जी०एन०एम० / ए०एन० एम०)

1- परीक्षा शुल्क रु० 3500/- प्रति अभ्यर्थी की दर से कुल फीस का एक बैंक ड्राफ्ट "सचिव, उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ" के पक्ष में देय होगा।

2- रजिस्ट्रेशन शुल्क रु० 1250/- प्रति अभ्यर्थी की दर से कुल फीस का एक बैंक ड्राफ्ट "रजिस्ट्रार, उ० प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइव्स कौंसिल, लखनऊ" के पक्ष में देय होगा। रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सूची संलग्न करें।

प्रथम वर्ष के जिन संस्थानों की इनरोलमेंट सूची एवं परीक्षा शुल्क कार्यालय जमा है, वे सूची एवं रसीद संलग्न कर उपलब्ध कराएँ। जिन्होंने अभी तक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया है वे उसे उपरोक्त निश्चित अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा अर्हर अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना संभव नहीं हो सकेगा।

भवदीय,

सचिव

उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी